



# झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



---

संख्या -248 राँची, मंगलवार, 17 वैशाख, 1946 (श०)  
7 मई, 2024 (ई०)

---

## विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग)

-----  
अधिसूचना

7 मई, 2024/वैशाख 17, 1946 (शक)

**का०आ० .....** (अ)— सत्रहवीं लोक सभा के कार्यकाल की समाप्ति पर, नई लोक सभा गठित किए जाने के प्रयोजन के लिए साधारण निर्वाचन कराए जाने का विनिश्चय किया गया है;

अतः, अब, राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 14 की उपधारा (2) के अनुसरण में, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में यथाविनिर्दिष्ट तत्स्थानी, यथास्थिति, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और चंडीगढ़ राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में समाविष्ट की गई उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार, सदस्य निर्वाचित करने की अपेक्षा करती हैं:

राज्य (1)	संसदीय क्षेत्र (2)
बिहार	29-नालन्दा
	30-पटना साहिब
	31-पाटलिपुत्र
	32-आरा
	33-बक्सर
	34-सासाराम (अ.जा.)
	35-काराकाट
	36-जहानाबाद
हिमाचल प्रदेश	1-कांगड़ा
	2-मण्डी
	3-हमीरपुर
	4-शिमला (अ.जा.)
झारखंड	1-राजमहल (अ.ज.जा.)
	2-दुमका (अ.ज.जा.)
	3-गोड्डा
ओडिशा	5-मयूरभंज (अ.ज.जा.)
	6-बालासोर
	7-भाद्रक (अ.जा.)
	8-जाजपुर (अ.जा.)
	15-केन्द्रपाड़ा
	16-जगतसिंहपुर (अ.जा.)
पंजाब	1-गुरदासपुर
	2-अमृतसर
	3-खडूर साहिब
	4-जालन्धर (अ.जा.)
	5-होशियारपुर (अ.जा.)
	6-आनन्दपुर साहिब
	7-लुधियाना
	8-फतेहगढ़ साहिब (अ.जा.)
	9-फरीदकोट (अ.जा.)

	10-फिरोज़पुर
	11-भटिण्डा
	12-संगरूर
	13-पटियाला
उत्तर प्रदेश	63-महराजगंज
	64-गोरखपुर
	65-कुशीनगर
	66-देवरिया
	67-बांसगांव (अ.जा.)
	70-घोसी
	71-सलेमपुर
	72-बलिया
	75-गाजीपुर
	76-चन्दौली
	77-वाराणसी
	79-मिर्जापुर
	80-राबर्ट्सगंज (अ.जा.)
पश्चिमी बंगाल	16-दमदम
	17-बारासात
	18-बसीरहाट
	19-जयनगर (अ.जा.)
	20-मथुरापुर (अ.जा.)
	21-डायमण्ड हारबर
	22-जादवपुर
	23-कोलकाता दक्षिण
	24-कोलकाता उत्तर
चंडीगढ़	1-चंडीगढ़

[फा.सं. एच-11024(4)/2023-वि.॥]

दिवाकर सिंह,  
संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

# भारत निर्वाचन आयोग

## अधिसूचना

07 मई, 2024/17 वैशाख, 1946 (शक)

**संख्या- 464/ईपीएस/2024(7)--यतः,** भारत के राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 14 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निर्गत और भारत के राजपत्र में 07 मई, 2024 (मंगलवार) को प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ (1) में उल्लिखित राज्यों या संघ राज्य-क्षेत्रों में, इसके स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अपेक्षा की है कि उक्त अधिनियम के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार लोक सभा के लिए सदस्य निर्वाचित कर दें;

2. **अतः, अब,** उक्त अधिनियम की धारा 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा-

(अ) उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से उक्त निर्वाचन के संबंध में-

(क) नामनिर्देशन करने की अंतिम तारीख के रूप में **14 मई, 2024 (मंगलवार)** को;

(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख के रूप में **15 मई, 2024 (बुधवार)** को;

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख के रूप में **17 मई, 2024 (शुक्रवार)** को;

(घ) नीचे दी गई **अनुसूची** के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख को उस तारीख के रूप में, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में तदनुरूप प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा; और

(ङ) **06 जून, 2024 (गुरुवार)** को उस तारीख के रूप में, जिससे पहले ऊपर उल्लिखित सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन संपन्न करा लिया जाएगा;

**नियत करता है; और**

(आ) उक्त अनुसूची के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट **समय** को ऐसे समय के रूप में **निर्धारित करता है** जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो उपर्युक्त निर्वाचन के लिए उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में तदनुरूप प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों में, इसके स्तंभ (3) में ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के सम्मुख विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान कराया जाएगा।

**अनुसूची****संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, तिथि और मतदान का समय****चरण -VII**

राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र खंड	मतदान की तिथि	मतदान का समय
(1)	(2)	(3)	(4)
बिहार	<b>29-नालन्दा</b>	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	<b>30-पटना साहिब</b>	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	<b>31-पाटलिपुत्र</b>	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	<b>32-आरा</b>	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	<b>33-बक्सर</b>	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	<b>34-सासाराम (अ.जा.)</b>		
	204-मोहनिया (अ.जा.) वि.स.नि.क्षे.	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	205-भभुआ वि.स.नि.क्षे.	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	206-चैनपुर वि.स.नि.क्षे.	01.06.2024 (शनिवार)	306 मतदान केंद्रों (सं. 1 से 237, 245 से 313,) के लिए  पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे।  शेष 53 मतदान केंद्रों के लिए  पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे।
	207-चेनारी (अ.जा.) वि.स.नि.क्षे.	01.06.2024 (शनिवार)	26 मतदान केंद्रों (सं. 88, 97 से 99, 190 से 194, 197, 198, 256 से 261, 290, 291, 297, 299 से 302, 306, 310) के लिए  पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे।  शेष 298 मतदान केंद्रों के लिए  पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे।
	208-सासाराम वि.स.नि.क्षे.	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	209-करगहर वि.स.नि.क्षे.	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे

	<b>35-काराकाट</b>		
	211-नोखा वि.स.नि.क्षे.	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	212-डिहरी वि.स.नि.क्षे.	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	213-काराकाट वि.स.नि.क्षे.	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	219-गोह वि.स.नि.क्षे.	01.06.2024 (शनिवार)	48 मतदान केंद्रों (सं. 165, 166, 170, 193, 221, 227, 228, 230 से 238, 245 से 253, 257, 258, 268 से 272, 274 से 282, 287 से 289, 293, 295, 300, 321) के लिए  पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 5.00 बजे।  शेष 284 मतदान केंद्रों के लिए  पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे।
	220-ओबरा वि.स.नि.क्षे.	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	221-नवीनगर वि.स.नि.क्षे.	01.06.2024 (शनिवार)	24 मतदान केंद्रों (सं. 218, 219, 226, 242, 267, 268, 270 से 272, 274 से 277, 280 से 283, 289 से 291, 315, 316, 319, 320) के लिए  पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 5.00 बजे।  शेष 296 मतदान केंद्रों के लिए  पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे।
	<b>36-जहानाबाद</b>	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
हिमाचल प्रदेश	<b>1-कांगड़ा</b>	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	<b>2-मण्डी</b>	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	<b>3-हमीरपुर</b>	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	<b>4-शिमला (अ.जा.)</b>	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
झारखण्ड	<b>1-राजमहल (अ.ज.जा.)</b>	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 5.00 बजे
	<b>2-दुमका (अ.ज.जा.)</b>	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 5.00 बजे
	<b>3-गोड्डा</b>	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 5.00 बजे

ओडिशा	5-मयूरभंज (अ.ज.जा.)	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	6-बालासोर	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	7-भाद्रक (अ.जा.)	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	8-जाजपुर (अ.जा.)	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	15-केन्द्रपाड़ा	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	16-जगतसिंहपुर (अ.जा.)	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
पंजाब	1-गुरदासपुर	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	2-अमृतसर	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	3-खड्डर साहिब	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	4-जालन्धर (अ.जा.)	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	5-होशियारपुर (अ.जा.)	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	6-आनन्दपुर साहिब	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	7-लुधियाना	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	8-फतेहगढ़ साहिब (अ.जा.)	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	9-फरीदकोट (अ.जा.)	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	10-फिरोज़पुर	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	11-भटिण्डा	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	12-संगरूर	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	13-पटियाला	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
उत्तर प्रदेश	63-महराजगंज	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	64-गोरखपुर	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	65-कुशीनगर	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	66-देवरिया	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	67-बांसगांव (अ.जा.)	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	70-घोसी	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	71-सलेमपुर	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	72-बलिया	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	75-गाजीपुर	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	76-चन्दौली	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	77-वाराणसी	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	79-मिर्जापुर	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे

	<b>80-राबर्ट्सगंज (अ.जा.)</b>		
	383-चकिया (अ.जा.) वि.स.नि.क्षे.	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	400-घोरावल वि.स.नि.क्षे.	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	401-राबर्ट्सगंज वि.स.नि.क्षे.	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	402-ओबरा (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	403-दुद्धी (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
<b>पश्चिम बंगाल</b>	<b>16-दमदम</b>	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	<b>17-बारासात</b>	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	<b>18-बसीरहाट</b>	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	<b>19-जयनगर (अ.जा.)</b>	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	<b>20-मथुरापुर (अ.जा.)</b>	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	<b>21-डायमण्ड हारबर</b>	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	<b>22-जादवपुर</b>	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	<b>23-कोलकाता दक्षिण</b>	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	<b>24-कोलकाता उत्तर</b>	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
<b>चंडीगढ़</b>	<b>1-चंडीगढ़</b>	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे

आदेश से,

**संजीव कुमार प्रसाद,**  
सचिव  
भारत निर्वाचन आयोग

उपरोक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

**के० रवि कुमार,**  
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव



**MINISTRY OF LAW AND JUSTICE  
LEGISLATIVE DEPARTMENT**

-----  
**NOTIFICATION**

07<sup>th</sup> May, 2024/Vaisakha 17, 1946 (SAKA).

**S.O. (E).**— Whereas it has been decided to hold a general election for the purpose of constituting a new House of the People, on the expiration of the term of Seventeenth House of the People;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (2) of section 14 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the President is pleased to call upon the Parliamentary Constituencies, specified, in column (2) of the Table given below comprised within the corresponding States or Union territory, as the case may be, of Bihar, Himachal Pradesh, Jharkhand, Odisha, Punjab, Uttar Pradesh, West Bengal and Chandigarh as specified in column (1) of the said Table, to elect the Members in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder:

STATE (1)	PARLIAMENTARY CONSTITUENCY (2)
BIHAR	29-Nalanda
	30-Patna Sahib
	31-Pataliputra
	32-Arrah
	33-Buxar
	34-Sasaram (SC)
	35-Karakat
	36-Jahanabad
HIMACHAL PRADESH	1-Kangra
	2-Mandi
	3-Hamirpur
	4-Shimla (SC)

JHARKHAND	1-Rajmahal (ST)
	2-Dumka (ST)
	3-Godda
ODISHA	5-Mayurbhanj (ST)
	6-Balasore
	7-Bhadrak (SC)
	8-Jajpur (SC)
	15-Kendrapara
	16-Jagatsinghpur(SC)
PUNJAB	1-Gurdaspur
	2-Amritsar
	3-Khadoor Sahib
	4-Jalandhar (SC)
	5-Hoshiarpur (SC)
	6-Anandpur Sahib
	7-Ludhiana
	8-Fatehgarh Sahib (SC)
	9-Faridkot (SC)
	10-Firozpur
	11-Bathinda
	12-Sangrur
	13-Patiala
UTTAR PRADESH	63-Maharajganj
	64-Gorakhpur
	65-Kushi Nagar

	66-Deoria
	67-Bansgaon (SC)
	70-Ghosi
	71-Salempur
	72-Ballia
	75-Ghazipur
	76-Chandauli
	77-Varanasi
	79-Mirzapur
	80-Robertsganj (SC)
WEST BENGAL	16-Dum Dum
	17-Barasat
	18-Basirhat
	19-Jaynagar (SC)
	20-Mathurapur (SC)
	21-Diamond Harbour
	22-Jadavpur
	23-Kolkata Dakshin
	24-Kolkata Uttar
CHANDIGARH	1-Chandigarh

[F. No. H-11024(4)/2023-Leg.II]

**Diwakar Singh,**  
Joint Secretary and Legislative Counsel

# ELECTION COMMISSION OF INDIA

## NOTIFICATION

07<sup>th</sup> May, 2024/17 Vaisakha, 1946 (Saka)

**No. 464/EPS/2024(7)--WHEREAS**, the President of India has, by notification issued under sub-section (2) of Section 14 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951) and published in the Gazette of India on the 07<sup>th</sup> May, 2024 (Tuesday), been pleased to call upon each of the parliamentary constituencies, specified in column (2) of the Schedule below, in the States or Union Territories mentioned in column (1), of the Schedule to elect members to the House of the People, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder;

2. **Now, therefore**, in pursuance of Sections 30 and 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby-

**(A) Appoints**, with respect to the said election, from each of the parliamentary constituencies specified in the said Schedule,

- (a) **the 14<sup>th</sup> May, 2024 (Tuesday)**, as the last date for making nominations;
- (b) **the 15<sup>th</sup> May, 2024 (Wednesday)**, as the date for scrutiny of nominations;
- (c) **the 17<sup>th</sup> May, 2024 (Friday)**, as the last date for withdrawal of candidatures;
- (d) the date specified in column (3) of the **SCHEDULE** below, as the date on which a poll shall, if necessary, be taken in the parliamentary constituencies, specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule; and
- (e) **the 06<sup>th</sup> June, 2024 (Thursday)**, as the date before which the election shall be completed in all the above mentioned parliamentary constituencies; and

**(B) Fixes the hours** specified in column (4) of the said Schedule, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in the constituencies, specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule, on the date specified against such constituency in column (3) thereof, for the above election.

**SCHEDULE****Parliamentary Constituencies, Date and Hours of Poll****Phase-VII**

State/Union Territory	Parliamentary Constituency/Assembly Constituency segment	Date of Poll	Hours of Poll
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>BIHAR</b>	<b>29-Nalanda</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>30-Patna Sahib</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>31-Pataliputra</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>32-Arrah</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>33-Buxar</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>34-Sasaram (SC)</b>		
	204- Mohania (SC) AC	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	205-Bhabua AC	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	206-Chainpur AC	01.06.2024 (Saturday)	For 306 Polling Stations (Polling Station Nos.1-237, 245-313) 07:00 AM to 06:00 PM For remaining 53 Polling Stations 07:00 AM to 04:00 PM
	207-Chenari (SC) AC	01.06.2024 (Saturday)	For 26 Polling Stations (Polling Station Nos.88, 97-99, 190-194, 197, 198, 256-261, 290, 291, 297, 299-302, 306, 310) 07:00 AM to 04:00 PM For remaining 298 Polling Stations 07:00 AM to 06:00 PM
	208- Sasaram AC	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	209- Kargahar AC	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM

	<b>35-Karakat</b>		
	211- Nokha AC	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	212- Dehri AC	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	213- Karakat AC	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	219- Goh AC	01.06.2024 (Saturday)	<u>For 48 Polling Stations</u> (Polling Station Nos.165, 166, 170, 193, 221, 227, 228, 230-238, 245-253, 257, 258, 268-272, 274-282, 287-289, 293, 295, 300, 321) 07:00 AM to 05:00 PM <u>For remaining 284 Polling Stations</u> 07:00 AM to 06:00 PM
	220- Obra AC	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	221- Nabinagar AC	01.06.2024 (Saturday)	<u>For 24 Polling Stations</u> (Polling Station Nos.218, 219, 226, 242, 267, 268, 270-272, 274-277, 280-283, 289-291, 315, 316, 319, 320) 07:00 AM to 05:00 PM <u>For remaining 296 Polling Stations</u> 07:00 AM to 06:00 PM
	<b>36-Jahanabad</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
<b>HIMACHAL PRADESH</b>	<b>1-Kangra</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>2-Mandi</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>3-Hamirpur</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>4-Shimla (SC)</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
<b>JHARKHAND</b>	<b>1-Rajmahal (ST)</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 05:00 PM
	<b>2-Dumka (ST)</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 05:00 PM
	<b>3-Godda</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 05:00 PM

<b>ODISHA</b>	<b>5-Mayurbhanj (ST)</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>6-Balasore</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>7-Bhadrak (SC)</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>8-Jajpur (SC)</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>15-Kendrapara</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>16-Jagatsinghpur (SC)</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
<b>PUNJAB</b>	<b>1-Gurdaspur</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>2-Amritsar</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>3-Khadoor Sahib</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>4-Jalandhar (SC)</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>5-Hoshiarpur (SC)</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>6-Anandpur Sahib</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>7-Ludhiana</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>8-Fatehgarh Sahib (SC)</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>9-Faridkot (SC)</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>10-Firozpur</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>11-Bathinda</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>12-Sangrur</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>13-Patiala</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
<b>UTTAR PRADESH</b>	<b>63-Maharajganj</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>64-Gorakhpur</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>65-Kushi Nagar</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>66-Deoria</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>67-Bansgaon (SC)</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>70-Ghosi</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>71-Salempur</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>72-Ballia</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>75-Ghazipur</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>76-Chandauli</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>77-Varanasi</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>79-Mirzapur</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>80-Robertsganj (SC)</b>		
	383-Chakia (SC) AC	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	400-Ghorawal AC	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	401-Robertsganj AC	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 04:00 PM

	402-Obra (ST) AC	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	403-Duddhi (ST) AC	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 04:00 PM
<b>WEST BENGAL</b>	<b>16-Dum Dum</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>17-Barasat</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>18-Basirhat</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>19-Jaynagar (SC)</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>20-Mathurapur (SC)</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>21-Diamond Harbour</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>22-Jadavpur</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>23-Kolkata Dakshin</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>24-Kolkata Uttar</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
<b>CHANDIGARH</b>	<b>1-Chandigarh</b>	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM

By order,

**SANJEEV KUMAR PRASAD,**  
 SECRETARY TO THE  
 ELECTION COMMISSION OF INDIA

-----